



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 304]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 18, 1978/आश्विन 26, 1900

No. 304]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 1978/ASVINA 26, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, तारीख 18 अक्टूबर, 1978

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० कां० निं० 502(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 164/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1975 को अधिकांत करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 27 के अन्तर्गत आने वाले एल्युमिनियम की, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, जितना मूलानुसार चालीस प्रतिशत से अधिक है।

[186/78]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 18th October, 1978

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 502(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and

726 GI/78

in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 164/75-Central Excises, dated the 15th July, 1975, the Central Government hereby exempts aluminium, falling under Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of forty per cent. ad valorem.

[186/78]

सां० कां० निं० 503 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 27 के अन्तर्गत आने वाले एल्युमिनियम की, जो एल्युमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के साथ पठित, तत्समय प्रवृत्त उक्त आदेश में अन्तर्निष्ठ उपबन्धों के अनुसार विक्रय या प्रदाय के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित है, उस पर उद्ग्रहीत आने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना ऐसे एल्युमिनियम के लिए उसके उत्पादक को संदेय मूल्य के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा, उक्त आदेश के अन्तर्निष्ठ उपबन्धों के अनुसार, समय-समय पर नियत विक्रय मूल्य के आधार पर संगणित शुल्क से अधिक हो।

[187/78]

G.S.R. 503(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts aluminium, falling under Item No. 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and requires by the Central Government to be sold or supplied in terms of the provisions contained in the Aluminium (Control) Order,

(959)

1970, as in force for the time being, read with the notifications issued thereunder, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty calculated on the basis of the sale price fixed by the Central Government from time to time, in terms of the provisions contained in the aforesaid Order, as the price payable for such aluminium to the producer thereof.

[187/78]

सा.क्रा.नि. 504(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के, यथास्थिति, वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) या राजस्व और बैंकिंग विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखीणित करती है, अर्थात् :—

(1) सं. 187/75-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 15 जुलाई, 1975

(2) सं. 265/76-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अक्टूबर, 1976

[188/78]

आर के चन्द्र, अवर सचिव

G.S.R. 504(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) or Department of Revenue and Banking, as the case may be, namely :—

(1) No. 167/75-Central Excises, dated 15th July, 1975.

(2) No. 265/76-Central Excises, dated 30th October, 1976.

[188/78]

R. K. CHANDRA, Under Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 305] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 18, 1978/आश्विन 26, 1900
No. 305] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 1978/ASVINA 26, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विस्तृत मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1978

सीमाशुल्क

सा. का. नि. 505 (अ).—केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का
32) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड 1 के अनुसरण में, भारत
सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 192-सीमा-शुल्क—सा.का.नि. सं. 485(अ),

तारीख 1 अक्टूबर, 1978 में, निम्नीलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् उक्त अधिसूचना के नीचे की अनुसूची में क्रम सं. 14 और उससे सम्बन्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नीलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
14	पाँड स्टर्लिंग	6.2205

[सं. 198 सी.यू./फ. सं. 503/78 सी.यू.-8]
ए. बोर्दिया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 505(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue No. 192-Cus.—G.S.R. No. 485(E) dated the 1st October, 1978, namely :—

In the Schedule below the said notification,—For Serial No. 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
14	Pound Sterling	6.2205

[No. 198-Cus./F. No. 503/78-Cus. VI]

A. BORDIA, Under Secy.